



सिटी हॉल और कार्पोरेट फैसिलिटीज अब केवल तय मुलाकात द्वारा आने के लिए ही खुल रही हैं

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 सितम्बर, 2020) – कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए, बंद होने के छह माह बाद, सिटी हॉल (City Hall) सहित, सिटी की कार्पोरेट फैसिलिटीज, केवल तय मुलाकात द्वारा आने के लिए, आज जनता के लिए दुबारा खुल रही हैं। इस समय, बिना तय मुलाकात के आने की अनुमति नहीं है।

क्या-क्या खुला है (केवल तय मुलाकात द्वारा)

9 सितम्बर से शुरू करते हुए, नीचे दिए स्थान, केवल तय मुलाकात-आधारित सेवाओं के लिए ही खुल रहे हैं:

- सिटी हॉल, 2 वेलिंग्टन स्ट्रीट वेस्ट (City Hall, 2 Wellington St. W)
- सिविक सेंटर, 150 सेंट्रल पार्क ड्राइव (Civic Centre, 150 Central Park Dr.)
- विलियम्स पार्कवे ऑपरेशन्स सेंटर, 1975 विलियम्स पार्कवे (Williams Parkway Operations Centre, 1975 Williams Pkwy)
- एनिमल सर्विसिज, 475 क्रिस्लर ड्राइव (Animal Services, 475 Chrysler Dr.)
- बिल्डिंग डिवीजन एंड एन्फोर्समेंट एंड बाइ-लॉ सर्विसिज कार्यालय, 8850 मैकलॉग्लिन रोड साउथ (Building Division and Enforcement and By-law Services offices, 8850 McLaughlin Rd. S)

पी.ओ.ए. कोर्टहाउस, 5 रे लॉसन बुलेवार्ड (POA Courthouse, 5 Ray Lawson Blvd), 6 जुलाई से खुला हुआ है।

अधिक विवरणों के लिए, www.brampton.ca/reopening पर जाएं।

जो सेवाएं अब उपलब्ध हैं

9 सितम्बर से शुरू करते हुए, नीचे दी गई सेवाएं, केवल तय मुलाकात द्वारा ही व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध हैं:

- शादी के लाइसेंस
- बिजनेस संबंधी लाइसेंस और साइन बोर्डों के लिए आवेदन
- प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य भुगतानों के लिए कैशियर काउंटर
- पूछताछ के लिए सर्विस ब्रैम्पटन (Service Brampton) के डेस्क
- गैर-रिहायशी आवेदन, ज़ोनिंग सेवाओं के लिए बिल्डिंग परमिट आवेदन और साइन परमिट
- जानवरों को गोद लेना, लाइसेंसिंग और पूछताछ



कई सेवाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं और उन तक www.brampton.ca पर या 311 पर फोन करके पहुंचा जा सकता है।

मुलाकातों के लिए बुकिंग करना

सिटी की सेवाओं तक व्यक्तिगत पहुंच के लिए, मुलाकातें बुक करना ज़रूरी है।

कई मुलाकातें, www.brampton.ca/skiptheline पर सिटी की नई ऑनलाइन सेवा *स्किप द लाइन (Skip the Line)* उपयोग करते हुए, बुक की जा सकती हैं।

प्री-स्क्रीनिंग सवालों के जवाब देने के बाद, ऑनलाइन अपनी मुलाकातें बुक करें, रीशेड्यूल या रद्द करें।

तय मुलाकात में शामिल होने के समय:

- सुनिश्चित करें कि अपनी मुलाकात के लिए पहुंचने से पहले, आपके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं।
- समय पर पहुंचें – जिन मुलाकातों पर न पहुंचा जा सके या पहुंचने में देरी हो जाए, उन्हें बाद में दुबारा बुक कराने की जरूरत हो सकती है।
- बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें।
- खुद के और दूसरों के बीच में, कम से कम 2 मीटर (6 फुट) की शारीरिक दूरी रखें।
- चेहरे पर गैर-मेडिकल (कपड़े का बना साधारण मास्क) पहनना आवश्यक है।

रेक्रिएशन सेंटर

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की चुनिंदा रेक्रिएशन संबंधी फैसिलिटीज, 8 सितम्बर से केवल आरक्षित (रिज़र्व की हुई) मुलाकातों के लिए दुबारा खुली हैं। उपलब्ध प्रोग्राम क्षेत्रों में शामिल हैं, फिटनेस, एक्वाटिक्स, आम रुचि वाले प्रोग्राम और स्केटिंग। निवासी www.brampton.ca/recreation पर, *रजिस्टर्ड एंड ड्रॉप-इन प्रोग्राम्स (Registered and Drop-In Programs)* वेब पेज देखकर, रिज़र्वेशन टाइमस्लॉट देखकर अपनी विजिट रीशेड्यूल कर सकते हैं। रिज़र्वेशन, एडवांस में सात दिन पहले तक स्वीकार की जाती हैं। वैकल्पिक तौर पर, निवासी 311 पर फोन करके रिज़र्वेशन बुक कर सकते हैं।

सिटी की फैसिलिटीज में बढ़ाए गए सुरक्षा उपाय

ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) और पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह के मुताबिक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, फैसिलिटीज को सुरक्षित रखने के लिए, बढ़ाए गए सुरक्षा उपाय लागू करना जारी रखेगी। यह प्रोटोकॉल, आगंतुकों (विजिटर्स),



कॉन्ट्रैक्टर्स, ग्राहकों और कर्मचारियों सहित, लोगों को संभावी जोखिमों से सुरक्षित रखने, इनकी रोकथाम करने और इन्हें खत्म करने में मदद करते हैं।

बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों में शामिल हैं:

- सक्रिय स्क्रीनिंग
- चेहरे को ढकना और निजी सुरक्षात्मक उपकरण (पी.पी.ई.)
- पब्लिक-फेसिंग काउंटर बैरियर
- सैनिटाइज़ करना
- सफाई और रोगाणु-मुक्त करना
- साइन बोर्ड
- आने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रित करना
- साझे उपयोग वाले कार्यस्थलों पर पाबंदियां

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, समुदाय को सहयोग करने के सिटी के प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं या @CityBrampton को [Twitter](#), [Facebook](#) और [Instagram](#) पर फॉलो करें।

सिटी के बाइ-लॉ के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca